



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 अग्रहायण 1935 (श0)
(सं0 पटना 912) पटना, बुधवार, 18 दिसम्बर 2013

सं0 41-न0वि0-IHSP-10/12-2190
नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प
16 दिसम्बर 2013

विषय:-वित्तीय वर्ष 2007-14 के बीच समेकित आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम (IHSDP) योजना के अधीन सरकार द्वारा 17 नगर निकायों में 20721 आवासों के लिए दी गयी कुल रु0 58193.53 लाख (पाँच अरब इक्कासी करोड़ तिरानवे लाख तिरपन हजार रु0 मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति के अतिरिक्त परियोजना प्रबंधन ईकाइयों के गठन के लिए आकस्मिकता मद में अतिरिक्त राशि रु0 1150.45 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति एवं उक्त परियोजनाओं हेतु सम्बन्धित नगर निकायों को कार्यान्वयन एजेन्सी नामित करने के संबंध में।

समेकित आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम (IHSDP) के अन्तर्गत नगर निगम गया के लिए रु0 4458.79 लाख, नगर निगम मुंगेर के लिए रु0 2019.02 लाख, नगर निगम पूर्णिया के लिए रु0 5086.74 लाख, नगर परिषद बाढ़-। के लिए रु0 3466.46 लाख, नगर परिषद बाढ़-।। के लिए रु0 2029.64 लाख, नगर परिषद मोकामा के लिए रु0 6954.23 लाख, नगर परिषद फारबिसगंज के लिए रु0 2152.81 लाख, नगर परिषद जमुई के लिए रु0 2530.18 लाख, नगर परिषद किशनगंज-।। के लिए रु0 3055.16 लाख, नगर परिषद सहरसा के लिए रु0 1932.58 लाख, नगर परिषद अररिया के लिए रु0 2126.28 लाख, नगर परिषद मधेपुरा-।। के लिए रु0 2032.44 लाख, नगर परिषद नरकटियागंज के लिए रु0 383.88 लाख, नगर पंचायत रोसड़ा के लिए रु0 1432.34 लाख, नगर पंचायत बेलसंड के लिए रु0 5054.55 लाख, नगर पंचायत नवीनगर के लिए रु0 4366.91 लाख, नगर पंचायत नौबतपुर के लिए रु0 4907.37 लाख एवं नगर पंचायत ठाकुरगंज के लिए रु0 4204.15 लाख, कुल रु0 58193.53 लाख (पाँच अरब इक्कासी करोड़ तिरानवे लाख तिरपन हजार रु0 मात्र) की पूर्व में प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त थी।

2. इस योजना के अंतर्गत निर्मित होने वाले कुल आवासीय ईकाइयों की संख्या क्रमशः बाढ़-।। 500, मोकामा 1950, पूर्णिया-।। 1615, बेलसंड 1487, नवीनगर 1277, नौबतपुर 1500, ठाकुरगंज 1352, बाढ़-। 1154, फारबिसगंज 870, जमुई 960, गया नगर निगम 1747, किशनगंज-।। 1255, मुंगेर 784, सहरसा 820, अररिया 728, मधेपुरा-।। 776, रोसड़ा 1562, नरकटियागंज 300 अर्थात् कुल 20721 आवासीय ईकाई है। योजना का कार्यान्वयन नगर निकायों के माध्यम से कराया जायेगा। राशि का आवंटन नगर निकायों को किया जायेगा और सम्बन्धित नगर निकायों द्वारा लाभार्थियों के खाते में विभिन्न चरणों में राशि जमा की जायेगी। लाभार्थियों द्वारा स्वयं आवास का निर्माण कार्य कराया

जायेगा जिससे कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सकेगी एवं कार्य समय पर पूर्ण किया जा सकेगा। आधारभूत संरचना का कार्य निविदा के माध्यम से नगर निकायों द्वारा कराया जायेगा। इसके लिए मार्गदर्शिका अलग से निर्गत की जा रही है।

3. उल्लेखनीय है कि नगर निकायों के पास उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु सक्षम मानव संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। अतः सरकार के निर्णय के आलोक में कार्यहित में प्रत्येक नगर निकाय में इस योजना के लिए एक परियोजना प्रबंधन ईकाई का गठन किया जाना है। जो उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में नगर निकायों को मानव संसाधन व तकनीकी सहायता उपलब्ध करायेगा। इसके फलस्वरूप इन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत आकस्मिकता मद में कुल परियोजना राशि की 3 प्रतिशत राशि आवंटित की जा रही है। इसके फलस्वरूप पूर्व में स्वीकृत आकस्मिकता मद की राशि में रु० 1150.45 लाख अतिरिक्त राशि की वृद्धि होगी, जिसका वहन विषयांकित योजनाओं के लिए पूर्व से निकासी की गयी राशि के सूद की राशि से किया जायेगा तथा अवशेष वांछित राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। परियोजना प्रबंधन ईकाई व स्वयंसेवी संस्थाओं के संरचना व चयन के बारे में मार्गदर्शिका अलग से निर्गत की जा रही है।

4. समेकित आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम के दिशानिर्देश के आलोक में वर्ष 2007-14 के बीच कुल 18 योजनाओं की स्वीकृति दी गयी थी, जो क्रमशः नरकटियागंज एवं रोसड़ा वर्ष 2007-08, मुंगेर, सहरसा, मधेपुरा एवं अररिया वर्ष 2009-10, फारबिसगंज, गया, किशनगंज-॥, जमुई एवं बाढ़-। वर्ष 2010-11 एवं बाढ़ फेज-॥, मोकामा, पूर्णिया-॥, बेलसंड, नवीनगर, नौबतपुर एवं ठाकुरगंज वित्तीय वर्ष 2011-12 से संबंधित है। तत्पश्चात इन सभी योजनाओं की राज्यांश की राशि सरकार के अनुमोदनोपरान्त निकासी कर नगर विकास एवं आवास विभाग के खाता में संचित की गयी है जो निम्नवत है:-

क्र० सं०	निकायो का नाम	सरकार द्वारा स्वीकृति का वर्ष	कुल आवासों की संख्या	परियोजना लागत	केन्द्रांश की प्रथम किस्त की राशि का 50% (लाख में)		
					भवन निर्माण की राशि	इन्फ्रा की राशि	कुल राशि
1	2	3		4	5	6	7
1	नगर परिषद, बाढ़-॥	2012-2013	500	2029.64	200.00	334.40	534.40
2	नगर परिषद, मोकामा		1950	6954.23	780.00	932.62	1712.62
3	नगर निगम, पूर्णियां-॥		1615	5086.74	646.00	486.55	1132.55
4	नगर पंचायत, बेलसन्ड		1487	5054.55	594.80	448.60	1043.40
5	नगर पंचायत, नवीनगर		1277	4366.91	510.80	574.15	1084.95
6	नगर पंचायत, नौबतपुर		1500	4907.37	600.00	510.57	1110.57
7	नगर पंचायत, ठाकुरगंज		1352	4204.15	540.80	386.36	927.16
8	नगर परिषद, बाढ़-।	2011-2012	1154	3466.46	461.60	309.24	770.84
9	फॉरबीसगंज		870	2152.81	348.00	103.00	451.00
10	जमुई		960	2530.18	384.00	174.31	558.31
11	गया नगर निगम	2013-2014	1747	4458.79	698.80	260.10	958.90
12	नगर परिषद, किशनगंज-॥	2011-2012	1255	3055.16	502.00	128.85	630.85
13	नगर परिषद, मुंगेर	2010-2011	868	2019.02	347.20	80.50	427.70
14	नगर परिषद, सहरसा		820	1932.58	328.00	113.75	441.75
15	नगर परिषद, अररिया		728	2126.28	291.20	265.20	556.40
16	नगर परिषद, मधेपुरा-॥		776	2032.44	310.40	189.07	499.47
17	नगर परिषद, रोसड़ा	2007-2008	1562	1432.34	499.84	38.13	537.97
18	नगर परिषद, नरकटियागंज		300	383.88	96.00	50.25	146.25
Total-			20721	58193.53	8139.44	5385.65	13525.09

केन्द्र द्वारा स्वीकृत राज्यांश की प्रथम किस्त की राशि का 50% (लाख में)					अतिरिक्त प्रस्तावित (PMU) के लिए आकस्मिकता की राशि)
भवन निर्माण की राशि	इन्फ्रा की राशि	आकस्मिकता की राशि	DPR की राशि	कुल राशि	
8	9	10	11	13	14
362.50	83.60	29.42	39.22	514.74	29.42
1413.75	233.15	100.79	134.38	1882.07	100.79
1203.17	121.63	73.72	98.29	1496.81	73.72
1286.25	112.15	73.25	97.67	1569.32	73.25
881.13	143.54	63.29	84.38	1172.34	63.29
1132.50	127.64	71.12	94.83	1426.09	71.12
1007.24	96.59	60.93	81.24	1246.00	60.93
851.10	77.31	0.00	67.96	996.37	101.96
578.55	25.75	0.00	42.20	646.50	63.32
638.40	43.58	0.00	49.61	731.59	74.42
1161.75	65.02	0.00	87.42	1663.89	131.14
834.58	32.21	0.00	59.90	926.69	60.57
561.68	20.13	0.00	0.00	581.81	63.7884
496.10	28.44	0.00	0.00	524.54	57.9774
440.44	66.30	0.00	0.00	506.74	63.79
469.48	47.27	0.00	0.00	516.75	60.9732
124.96	9.53	67.25	20.17	221.91	0.00
24.00	12.56	18.26	0.00	54.82	0.00
13467.58	1346.39	558.03	957.27	16678.97	1150.45

उक्त 18 योजनाओं के लिए केन्द्रांश व राज्यांश के रूप में वर्ष 2007-14 के बीच निकासी की गई राशि खाते में संचित है जिससे प्राप्त आदिनांक सूद की राशि की गणना की जा रही है एवं आकस्मिकता मद में वांछित अतिरिक्त राशि रु0 1150.45 लाख का वहन इसी सूद की राशि से किया जायेगा। यदि सूद की राशि से वांछित अतिरिक्त राशि का वहन नहीं हो पाता है, तब ही शेष राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

5. अतः वित्तीय वर्ष 2007-14 के बीच समेकित आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम (IHSDP) योजना के अधीन सरकार द्वारा 17 नगर निकायों में 20721 आवासों के लिए दी गयी कुल रु0 58193.53 लाख (पाँच अरब इक्कासी करोड़ तिरानवे लाख तिरपन हजार रु0 मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति के अतिरिक्त परियोजना प्रबंधन ईकाइयों के गठन के लिए आकस्मिकता मद में अतिरिक्त राशि रु0 1150.45 लाख (ग्यारह करोड़ पचास लाख पैंतालीस हजार रु0 मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति एवं उक्त परियोजनाओं हेतु सम्बन्धित नगर निकायों को कार्यान्वयन एजेंसी नामित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/प्रमण्डलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों/नगर निकायों/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

जय सिंह,

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 912-571+200-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>